



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4, 1978/माघ 15, 1899

No. 47]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4, 1978/MAGHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सारणी

प्रति अणुकेंद्री शुल्क की मापतांत्रिक दर
(रुपये में)

अणुकेंद्री का आकार

मल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से काम करने वाली युनिटें
मल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता के बिना काम करने वाली युनिटें

सा० का० नि० 65(अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92ख के अन्तर्गण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 20/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जनवरी, 1976 को अधिष्ठात करने हुए, केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, मल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली युनिटों में खडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के अणुकेंद्री (सेन्टीक्यूबल) के लिए, जो नीचे की मापनी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, शुल्क की दरे नियत करनी हैं, जो इन अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से लेकर 31 मई, 1978 तक प्रति मल्फाइटेशन संयंत्र की जापानी नैमाकि उम मापनी के यथास्थिति स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्राविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं :

1	2	3
(1) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के अणुकेंद्री	1885	506
(2) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक की ऊंचाई और 4.57 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 61.0 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के	2530	699
(3) 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 45.7 सेन्टीमीटर से अधिक की ऊंचाई और 61.0 सेन्टीमीटर		

1	2	3
और उससे अधिक चिन्तु 76 2 सेंटीमीटर से अधिक व्यास के	3685	994
(4) अन्य सभी अपकेन्द्री जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	4885	1303

परन्तु :

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सप्ताह की गणना, अधिवर्ष (लीप इयर) में फरवरी मास के सिवाय, किसी कलेंडर मास के पहले से 7वें दिन तक, 8वें दिन से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 28वें दिन तक की जाएगी, और अधिवर्ष में फरवरी मास में सप्ताह की गणना पहले से 7वें दिन तक, 8वें से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 29वें दिन तक की जाएगी।

(2) कलेंडर मास के, फरवरी मास के सिवाय, यथास्थिति, शेष 2 या 3 दिन के लिए शुल्क की गणना सारणी के, यथास्थिति स्तंभ (2) या स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट साप्ताहिक शुल्क दरों की एक तिहाई दर से की जाएगी और शुल्क विनिर्माता द्वारा चौथे सप्ताह के लिए अर्थात् उस कलेंडर मास के 22वें दिन से 28वें दिन तक के लिए संदेय शुल्क के साथ-साथ उसके द्वारा संवेय होगा।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'दिन' से बीबीस घंटों की वह अवधि अभिप्रेत है जो प्रातः 9 बजे आरम्भ होती है।

यह अधिसूचना 8 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त होगी।

[नं० 26/78 सो०ई०/एफ० नं० 14/7/78-सी०एक्सआई०]]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th February, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 65 (E).—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 20/76-Central Excises, dated the 31st January, 1976, the Central Government hereby fixes, for the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of Khandsari sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plant, as the case may be, and specified in column (1) of the Table below, the rates of duty calculated from the date of commencement of this notification and up to the 31st day of May, 1978 per week as specified in the corresponding entry in column (2) or column (3) thereof, as the case may be.

TABLE

Sizes of Centrifugals	Weekly rate of duty per centrifugal (in rupees)	
	Units working with the aid of sulphitation plant	Units working without the aid of sulphitation plant
(1)	(2)	(3)
1. Height of the centrifugal not exceeding 22.9 centimetres and diameter not exceeding 45.7 centimetres	1885	506

1	2	3
2. Height exceeding 22.9 centimetres, but not exceeding 30.5 centimetres and diameter of and above 45.7 centimetres but not exceeding 61.0 centimetres	2530	669
3. Height exceeding 30.5 centimetres but not exceeding 45.7 centimetres and diameter of and above 61.0 centimetres but not exceeding 76.2 centimetres	3685	994
4. All other centrifugals not otherwise specified	4885	1303

Provided that :

(i) the week for the purposes of this notification shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 28th day of a calendar month except the month of February in a leap year, and the week in the month of February in a leap year shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 29th;

(ii) the duty for the remaining 2 or 3 days of the calendar month, except the month of February, as the case may be, shall be calculated at the rate of one-third of the weekly rates of duty specified in column (2) or column (3) of the Table, as the case may be, and shall be payable by the manufacturer along with the duty payable by him for the fourth week, namely, from 22nd to 28th of that calendar month.

Explanation—For the purposes of this notification, 'day' means a period of twenty-four hours beginning at 9.00 A.M.

This notification shall come into force on the 8th day of February, 1978.

[No. 26/78 CE/F. No. 14/7/78 CXI]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 66(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92ख और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1997 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसर्गण में और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 21/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जनवरी, 1976 को अधिकृत करते हुए यथास्थिति, सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली यूनिटों में खडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के अपकेन्द्री (सेन्ट्रीफ्यूगल) के लिए, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दरें नियत करती हैं, जो इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से 31 मई, 1978 तक प्रति सप्ताह संगणित की जाएगी जैसा कि उस सारणी के यथास्थिति स्तंभ (2) या स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी

प्रति प्रपकेन्द्रा शुल्क को मासिक
दर (रुपया में)

अपकेन्द्रा का आकार	सल्फाइटेशन सयंत्र की सहायता से काम करने वाली यूनिटें	सल्फाइटेशन सयंत्र की सहायता के बिना काम करने वाली यूनिटें
(1)	(2)	(3)
(1) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के अपकेन्द्रा	315	84
(2) 22.9 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक की ऊंचाई और 45.7 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 61.0 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के	420	111
(3) 30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 45.7 सेन्टीमीटर से अधिक की ऊंचाई और 61.0 सेन्टीमीटर और उससे अधिक किन्तु 76.2 सेन्टीमीटर से अधिक व्यास के	615	166
(4) अन्य सभी अपकेन्द्रा जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं	815	217

परन्तु :—

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजना के लिए सप्ताह की गणना, अधिवर्ष (लीप इयर) में फरवरी मास के सिवाय, किसी कलेंडर मास के पहले से 7वें दिन तक, 8वें दिन से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 28वें दिन तक की जाएगी और अधिवर्ष में फरवरी मास में सप्ताह की गणना पहले से 7वें दिन तक, 8वें से 14वें दिन तक, 15वें से 21वें दिन तक और 22वें से 29वें दिन तक की जाएगी।

(2) कलेंडर मास के फरवरी मास के सिवाय, यथास्थिति, जो 2 या 3 दिन के लिए शुल्क की गणना मारणी के, यथास्थिति स्तम्भ (2) या (3) में विनिर्दिष्ट मासिक शुल्क दरों की एक तिहाई दर से की जाएगी और शुल्क विनिर्माता द्वारा चौथे सप्ताह के लिये प्रयोज्य मास के 22वें दिन से 28वें दिन तक के लिए मदेय शुल्क के साथ-साथ उसके द्वारा मदेय होगा।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'दिन' में चौबीस घंटा की वह अवधि अभिप्रेत है जो प्रातः 9 बजे आरम्भ होती है। यह अधिसूचना 8 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त होगी।

[सं. 27/78 सी० ई/का० सं० 14/7/78-सी० एक्स-1]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 66(E).—In pursuance of rule 92B of the Central Excise Rules, 1944, and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 21/76-Central Excises, dated the 31st January, 1976, the Central Government hereby fixes for the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of khandsari sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plants, as the case may be, and specified in

column (1) of the Table below, the rates of additional excise duty calculated from the date of commencement of this notification and upto the 31st day of May, 1978, per week as specified in the corresponding entry in column (2) or column (3) thereof, as the case may be.

TABLE

Size of Centrifugals	Weekly rates of duty per centrifugal (in rupees)	
	Units working with the aid of sulphitation plant	Units working without the aid of sulphitation plant
(1)	(2)	(3)
1. Height of the centrifugal not exceeding 22.9 centimetres and diameter not exceeding 45.7 centimetres	315	84
2. Height exceeding 22.9 centimetres, but not exceeding 30.5 centimetres and diameter of and above 45.7 centimetres but not exceeding 61.0 centimetres	420	111
3. Height exceeding 30.5 centimetres but not exceeding 45.7 centimetres and diameter of and above 61.0 centimetres but not exceeding 76.2 centimetres	615	166
4. All other centrifugals not otherwise specified	815	217

Provided that :—

- the week for the purposes of this notification shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 28th day of a calendar month except the month of February in a leap year, and the week in the month of February in a leap year shall be reckoned as from 1st to 7th, 8th to 14th, 15th to 21st and 22nd to 29th.
- the duty for the remaining 2 or 3 days of the calendar month, except the month of February, as the case may be, shall be calculated at the rate of one-third of the weekly rates of duty specified in column (2) or column (3) of the Table, as the case may be, and shall be payable by the manufacturer along with the duty payable by him for the fourth week, namely, from 22nd to 28th of that calendar month.

Explanation:—For the purposes of this notification, 'day' means a period of twenty-four hours beginning at 9.00 A.M.

This notification shall come into force on 8th day of February, 1978.

[No. 27/78-CF /F. No. 14/7/78 CX-I.]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

CENTRAL EXCISES

सां कां निं 67(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 1 का उपमद सं (2) के अन्तर्गत आने वाली खंडसारी चीनी को उस पर उद्घरण्य उत्तने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्यानुसार माढ़े मात प्रतिशत ने अधिक है।

[सं 28/78/सी ई/एफ नं 14/7/78 सी० एम० आई०]

नृवनेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts khandsari sugar falling under sub-item (2) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of seven and a half per cent *ad valorem*.

[No. 28/78 CE/F. No. 14/7/78 CXI]

B. PROSAD, Under Secy.